

## गृह कार्य .....जारी

दिए गए गृह कार्य को करने में कितना समय लगता है?

अगर अंग्रेजी सीखने वाले छात्र को आधे घंटे का गृहकार्य दिया जाता है, तो उसे इसे पूरा करने में सामान्यतः 1-2 घंटे लगते हैं।

गृह कार्य किसे करना चाहिए?

छात्र को ही गृह कार्य करना चाहिए।

कुछ अभिभावक यह सोचते हैं कि बड़े भाई-बहन की मदद अच्छे ग्रेड प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। मदद का अर्थ निर्देशों को समझने में आसानी प्रदान करने से होना चाहिए।

शिक्षक कक्षा के कार्य तथा गृह-कार्य दोनों ही प्रकार के कार्य देते हैं। दोनों ही अंकों में गिने जाते हैं। अगर छात्र को स्वतंत्र रूप से गृह कार्य करने का पर्याप्त अभ्यास न हो, तो हो सकता है कि कुल मिलाकर उनका नतीजा अच्छा न हो।



## कम्प्यूटर का उपयोग

प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को अनुसंधान अथवा किसी सामूहिक प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके घर पर कम्प्यूटर नहीं है तो आपकी सार्वजनिक तथा विद्यालय लाइब्रेरी में कम्प्यूटर होगा, जिसे आपका बच्चा उपयोग कर सकता है।



VSB

## “Homework in BC Elementary Schools”

[Hindi]

यह ब्रोशर वैनकूवर स्कूल बोर्ड के सैटलमेंट वर्कर्स (VSB SWIS) द्वारा प्रायोजित किये गए कई ब्रोशरों में एक है। इसकी रचना कुछ ई.एस.एल. (ESL/ELL) शिक्षकों तथा वैनकूवर स्कूल बोर्ड के मल्टीकल्चरल लिएजों वर्कर्स (VSB MCLW) ने की है।


Canada  
BRITISH COLUMBIA  
The Best Place on Earth  
WelcomeBC

यह ब्रोशर कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सरकार से धन के माध्यम से संभव बनाया गया है।

बीसी प्राथमिक (एलीमेंटरी)

विद्यालयों में

गृह कार्य (होम वर्क) को  
समझना



किंडरगार्टन  
से ग्रेड 7 तक



### गृहकार्य के संबंध में शिक्षा पर बीसी मंत्रालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

शिक्षा मंत्रालय बीसी प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करता है। ये दिशा-निर्देश निम्नवत हैं:

ग्रेड K से 3 ► कोई गृह कार्य नहीं

ग्रेड 4 से 7 ► प्रति रात्रि आधे घंटे का कार्य।

### गृह कार्य के उदाहरण

- कक्षा में दिया गया कार्य पूरा करना।
- अंग्रेजी या मातृभाषा में एक निर्धारित समय के लिए कोई पुस्तक पढ़ना।
- अंग्रेजी में कोई विशिष्ट टेलीविजन कार्यक्रम देखना।
- विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करना।
- कक्षा संबंधी या सामूहिक प्रोजेक्ट पर सहपाठियों के साथ मिलकर कार्य करना।
- जर्नल प्रविष्टि लिखना।
- पाठ या उपन्यास में अध्याय को पढ़ना व उसका पुर्नपठन करना।

बीसी में, अध्यापक कार्य की मात्रा के बजाय कार्य की गुणवत्ता को अधिक मूल्यवान समझते हैं।



### गृह कार्य के उद्देश्य

गृह कार्य देने के कई कारण होते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र:

- अगले दिन अलग/नए कार्य के लिए तैयार रहें।
- बेहतर पाठक बनें।
- शब्द भण्डार में वृद्धि करें।
- किसी कहानी को स्पष्ट उच्चारण के साथ पुनः सुना सकें या लिख कर बताएं।
- भाषा कौशल को सीखें और उसका अभ्यास करें।
- कहानी के विकास को समझने की क्षमता में सुधार करें।
- जोड़े बनाकर या समूह में एक साथ कार्य करना सीखें तथा उसका अभ्यास करें।
- यह भविष्यवाणी करने की क्षमता में सुधार करें कि कहानी में अगला मोड़ क्या होगा।
- लेख सुधारें।